



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4804]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 4, 2018/अग्रहायण 13, 1940

No. 4804]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 4, 2018/AGRAHAYANA 13, 1940

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 2018

का. आ. 6030(अ).—यतः, मै. आर जी ए इन्फ्रास्ट्रक्चर, ने कर्नाटक राज्य के सर्वे नम्बर 31/1, गाँव चिक्काकनली, वर्धुर हुबली, बैंगलूर में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतदपश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और, यतः केन्द्र सरकार ने, विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 1.59 हेक्टेयर के क्षेत्र को विशेष आर्थिक जोन के रूप में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय अधिसूचना संख्या का.आ. 387(अ) दिनांक 09 फरवरी, 2017 द्वारा अधिसूचित किया था;

और यतः, मै. आर जी ए इन्फ्रास्ट्रक्चर ने अब 1.18 हेक्टेयर के क्षेत्र को उक्त विशेष आर्थिक जोन के भाग के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव किया है;

अतः अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्वारा 1.18 हेक्टेयर के क्षेत्र को उक्त विशेष आर्थिक जोन के भाग के रूप में शामिल करने के लिए अधिसूचित करती है, जिसके परिमाणतः कुल क्षेत्रफल 2.77 हेक्टेयर हो जाएगा, जिसमें निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित सर्वेक्षण संख्या और क्षेत्र शामिल है, अर्थात्—

अतिरिक्त क्षेत्र हेतु तालिका

क्र. सं.	गाँव का नाम	सर्वे संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1.	चिक्काकनली	31 / 1	1.18
कुल			1.18
उपयुक्त जोड़ के पश्चात् एसईजेड का कुल भोष क्षेत्रफल			2.77

[फा. सं. एफ.1/30/2016—एसईजेड]

बी. बी. स्वेन, अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(DEPARTMENT OF COMMERCE)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th November, 2018

S.O. 6030(E).—Whereas, M/s. RGA Infrastructure, had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a sector specific Special Economic Zone for Information Technology and Information Technology Enabled Services at Sy. No. 31/1, Chikkankannelli Village, Varthur Hobli, Bangalore East Taluk, Bangalore, in the State of Karnataka;

AND, WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, had notified an area of 1.59 hectares at the above Special Economic Zone vide Ministry of Commerce and Industry Notification Number S.O. 387(E) dated 9th February, 2017;

AND, WHEREAS, M/s. RGA Infrastructure has now proposed to include an area of 1.18 hectares as a part of above Special Economic Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby notifies an additional area of 1.18 hectares, as a part of above Special Economic Zone, thereby making total area of the Special Economic Zone as 2.77 hectares, comprising the survey number and the area given below in the table, namely:-

TABLE FOR ADDITIONAL AREA

Sl.No.	Name of village.	Survey No.	Area in hectares
1.	Chikkankannelli	31/1	1.18
	Total		1.18
	Grand total area of SEZ after above addition		2.77

[F. No. F.1/30/2016-SEZ]

B.B. SWAIN, Addl. Secy.